



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 2 मार्च, 2021 (फाल्गुन 11, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

श्री नंदकुमार सिंह चौहान, लोकसभा सांसद का निधन होना

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश के लोकप्रिय नेता एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान का आज निधन हो गया है. उनका पार्थिव शरीर आज भाजपा कार्यालय में दर्शन हेतु रखा जाएगा और कल उन्हें खण्डवा ले जाकर बुरहानपुर के उनके गांव में लोगों के अंतिम दर्शन हेतु रखा जाएगा. कल ही वहां उनकी अंत्येष्टि की जाएगी. जिसमें सदस्यों के शामिल होने हेतु सदन की कल दिनांक 3 मार्च, 2021 को होने वाली बैठक स्थगित करने का भी अनुरोध आसंदी से किया गया.

श्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन के नेता श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए श्री नंदकुमार सिंह चौहान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

2. वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री द्वारा राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार, वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के उपस्थापन के पश्चात् मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथा-अपेक्षित राजकोषीय नीति का विवरण वर्ष 2021-2022 सदन के समक्ष प्रस्तुत किया.

3. अध्यक्षीय घोषणा

आय-व्ययक की मांगों पर कटौती प्रस्ताव एवं सामान्य चर्चा का समय नियत किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में यह घोषणा की गई कि आय-व्ययक में सम्मिलित मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं, निर्धारित प्रपत्र में आज दिनांक 2 मार्च, 2021 को सायंकाल 5 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती हैं तथा आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए गुरुवार, दिनांक 4 मार्च एवं शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2021 का समय नियत किया गया है.

अपराह्न 12.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 4 मार्च, 2021 (13 फाल्गुन, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 2 मार्च, 2021.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.